

फिलेमोन

1 यह खत मसीह ईसा के कैदी पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से है।

मैं अपने अजीज दोस्त और हमखिदमत फिलेमोन को लिख रहा हूँ² और साथ साथ अपनी बहन अफिया, अपने हमसिपाह अरखिप्पुस और उस जमात को जो आपके घर में जमा होती है।

3 खुदा हमारा बाप और खुदावंद ईसा मसीह आपको फजल और सलामती अता करें।

फिलेमोन की मुहब्बत और ईमान

4 जब भी मैं दुआ करता हूँ तो आपको याद करके अपने खुदा का शुक करता हूँ।
5 क्योंकि मुझे खुदावंद ईसा के बारे में आपके ईमान और आपकी तमाम मुकद्दसीन से मुहब्बत की खबर मिलती रहती है।⁶ मेरी दुआ है कि आपकी जो रिफाकत ईमान से पैदा हुई है वह आपमें यों जोर पकड़े कि आपको बेहतर तौर पर हर उस अच्छी चीज की समझ आए जो हमें मसीह में हासिल है।⁷ भाई, आपकी मुहब्बत देखकर मुझे बड़ी खुशी और तसल्ली हुई है, क्योंकि आपने मुकद्दसीन के दिलों को तरो-ताजा कर दिया है।

उनेसिमुस की सिफारिश

8 इस वजह से मैं मसीह में इतनी दिलेरी महसूस करता हूँ कि आपको वह कुछ करने का हुक्म दूँ जो अब मुनासिब है।⁹ तो भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता बल्कि मुहब्बत की बिना पर आपसे अपील ही करता हूँ। गो मैं पौलुस मसीह ईसा का एलची बल्कि अब उसका कैदी भी हूँ¹⁰ तो भी मिन्नत करके अपने बेटे उनेसिमुस की सिफारिश करता हूँ। क्योंकि मेरे कैद में होते हुए वह मेरा बेटा बन गया।¹¹ पहले तो वह आपके काम नहीं आ सकता था, लेकिन अब वह आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी मुफ़ीद साबित हुआ है। *

12 अब मैं इसको गोया अपनी जान को आपके पास वापस भेज रहा हूँ।

13 असल में मैं उसे अपने पास रखना चाहता था ताकि जब तक मैं खुशखबरी

* **1:11** उनेसिमुस का मतलब कारामद, फायदामंद है।

की खातिर कैद में हूँ वह आपकी जगह मेरी खिदमत करे। 14 लेकिन मैं आपकी इजाज़त के बग़ैर कुछ नहीं करना चाहता था। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेहरबानी आप करेंगे वह आप मजबू होकर न करें बल्कि खुशी से।

15 हो सकता है कि उनेसिमस इसलिए कुछ देर के लिए आपसे जुदा हो गया कि वह आपको हमेशा के लिए दुबारा मिल जाए। 16 क्योंकि अब वह न सिर्फ़ गुलाम है बल्कि गुलाम से कहीं ज़्यादा। अब वह एक अज़ीज़ भाई है जो मुझे ख़ास अज़ीज़ है। लेकिन वह आपको कहीं ज़्यादा अज़ीज़ होगा, गुलाम की हैसियत से भी और खुदावंद में भाई की हैसियत से भी।

17 गरज़, अगर आप मुझे अपना साथी समझें तो उसे यों खुशआमदीद कहें जैसे मैं खुद आकर हाज़िर होता। 18 अगर उसने आपको कोई नुक़सान पहुँचाया या आपका कर्ज़दार हुआ तो मैं इसका मुआवज़ा देने के लिए तैयार हूँ। 19 यहाँ मैं पौलस अपने ही हाथ से इस बात की तसदीक़ करता हूँ : मैं इसका मुआवज़ा दूँगा अगरचे मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि आप खुद मेरे कर्ज़दार हैं। क्योंकि मेरा कर्ज़ जो आप पर है वह आप खुद हैं। 20 चुनाँचे मेरे भाई, मुझ पर यह मेहरबानी करें कि मुझे खुदावंद में आपसे कुछ फ़ायदा मिले। मसीह में मेरी जान को ताज़ा करें।

21 मैं आपकी फ़रमाँबरदारी पर एतबार करके आपको यह लिख रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप न सिर्फ़ मेरी सुनेगे बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए करेंगे। 22 एक और गुज़ारिश भी है, मेरे लिए एक कमरा तैयार करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआओं के जवाब में मुझे आपको वापस दिया जाएगा।

आखिरी सलाम

23 इफ़्रास जो मसीह ईसा में मेरे साथ कैदी है आपको सलाम कहता है। 24 इसी तरह मरकुस, अरिस्तरख़ुस, देमास और लूका भी आपको सलाम कहते हैं।

25 खुदावंद ईसा का फ़ज़ल आप सबके साथ होता रहे।

किताबे-मुकदस

**The Holy Bible in the Urdu language, Urdu Geo
Version, Hindi Script**

Copyright © 2019 Urdu Geo Version

Language: اردو (Urdu)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2023-11-29

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Feb 2024 from source files dated 30 Nov 2023

a1ee0020-7263-5fce-8289-9d7a7ac2d299